



### सिटी 15 जून से शुरू करते हुए बहुत जरूरी अथवा सहानुभूति के आधार पर शादी के लाइसेंस जारी करेगी

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (10 जून, 2020) – सोमवार, 15 जून से, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, बहुत जरूरी या सहानुभूति के आधार पर तय मुलाकात के द्वारा, शादी के लाइसेंस जारी करना शुरू करेगी। 16 मार्च से सिटी की फैसिलिटीज के बंद होने के कारण, सिटी ने कोविड-19 (COVID-19) महामारी के दौरान, स्टाफ और निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को कायम रखने के लिए, अस्थायी तौर पर शादी के लाइसेंस जारी करना बंद कर दिए थे।

शादी के लाइसेंस संबंधी आवेदनों का मूल्यांकन, हर केस के आधार पर अलग तौर पर किया जाएगा। लाइसेंस प्राप्त करने से पहले, बहुत जरूरी या सहानुभूति संबंधी जरूरतों के मुताबिक, आवेदकों की जांच (स्क्रीनिंग) की जाएगी। शहर जुलाई 2020 के अंत से पहले होने वाली शादी की रस्मों को प्राथमिकता देगा।

आवेदकों से अनुरोध है कि वे [marriage.licence@brampton.ca](mailto:marriage.licence@brampton.ca) पर ईमेल करके शादी के लाइसेंस के लिए निवेदन भेजें। 15 जून से शुरू करते हुए, एक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के द्वारा निवेदनों को जांचा जाएगा। एक बार मंजूर होने पर, सिटी उन आवेदकों के साथ मुलाकात तय करेगी, जिन्हें बहुत जरूरी या सहानुभूति के आधार पर शादी के लाइसेंस की जरूरत है। शादी के लाइसेंस के आवेदन के लिए और इन बदलावों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर जाएं।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में, निवासियों और स्टाफ का स्वास्थ्य और सुरक्षा, सबसे ऊपर है। कोविड-19 महामारी के दौरान, सिटी की फैसिलिटीज जनता के लिए अभी भी बंद हैं, इसलिए फैसिलिटीज में आने वालों की संख्या को सीमित करने के लिए, मुलाकातें सप्ताह में दो दिन ही की जाएंगी। इस समय सिविल सेरेमनीज रद्द रहेंगी।

-30-

#### मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)